

## 1. तत्वों को अलग करने की सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं

प्रकृति में मुख्यतः तत्व दो प्रकार के पाए जाते हैं। ये तत्व मुक्त अवस्था अथवा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं।

- **मुक्त अवस्था** - वे तत्व मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं जो वायुमंडल के ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाई ऑक्साइड इत्यादि से अभिक्रिया नहीं करे।

जैसे - सोना, चाँदी, प्लेटिनम आदि

- **संयुक्त अवस्था** - वे तत्व संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं जो वायुमंडल के ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाई ऑक्साइड इत्यादि से अभिक्रिया करे।

जैसे - सोडियम, पोटेशियम, लोहा, जिंक, आदि

- ❖ भू पर्फटी में पाए जाने वाले धातु युक्त पदार्थ को खनिज कहते हैं। इनकी क्रिस्टलीय संरचना होती है।
- ❖ भू पर्फटी से अयस्को को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है।
- ❖ **अयस्क** - जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण सुगमता से और कम खर्च में हो, उसे अयस्क कहते हैं।

जैसे - बॉक्साईट एलुमिनियम का, हेमाटाईट लोहा का, सिनेबार पारा का आदि

- ❖ सभी अयस्क खनिज होते हैं, किन्तु सभी खनिज अयस्क नहीं होते।
- ❖ गैंग - अयस्को में उपस्थित अशुद्धि को गैंग या अधात्री कहते हैं।
- ❖ **फ्लक्स** - अयस्को से अशुद्धि को दूर करने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाते हैं, उसे फ्लक्स कहते हैं।

जैसे -  $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$

$\text{CaO} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{CaSiO}_3$

फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं -

अम्लीय फ्लक्स  $\text{SiO}_2$  तथा बोरेक्स ( $\text{Na}_2[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4] \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ )

क्षारीय फ्लक्स  $\text{CaCO}_3, \text{MgCO}_3, \text{CaO}$

जब अयस्क में क्षारीय अशुद्धियाँ वर्तमान हो, तो अम्लीय फ्लक्स का प्रयोग होता है और जब अयस्क में अम्लीय अशुद्धियाँ वर्तमान हो, तो क्षारीय फ्लक्स का प्रयोग होता है।

- ❖ धातुमल (Slag) - गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर जो द्रवणशील हल्का पदार्थ बनाते हैं, उसे धातुमल कहते हैं।

$\text{CaO} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{CaSiO}_3$



$\text{SiO}_2 + \text{MgCO}_3 \rightarrow \text{MgSiO}_3 + \text{CO}_2$

अयस्को से धातु निष्कर्षण के दौरान ये स्लैग धातु के उपरी सतह पर तैरते हैं।

- **धातुकर्म** :- अयस्को से धातु का निष्कर्षण एवं शोधन की प्रक्रिया को धातुकर्म कहते हैं।
- **अयस्को का सांद्रण** :- अयस्को से अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्को का सांद्रण कहते हैं।
- **धातुकर्म में प्रयुक्त होने वाले विधि** -
  1. अयस्क का कूटना एवं पीसना
  2. अयस्क का सांद्रण
  3. धातु का पृथक्करण
  4. धातु का शोधन

Table 1.1 List of some metals and their common ores with their chemical formulae					
Metal	Ore	Composition	Metal	Ore	Composition
Aluminium	Bauxite	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Tin	Zinc blende or Spilbite	$\text{ZnS}$
	Doypore	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$		Cassiterite	$\text{SnO}_3$
	Kanknite	$\text{Al}_2[\text{SiO}_4](\text{OH})_4$		Tinstone	$\text{ZnO}$
	Hematite	$\text{Fe}_2\text{O}_3$		Gossita	$\text{PbS}$
Iron	Magnetite	$\text{Fe}_3\text{O}_4$	Lead	Angleite	$\text{PbSO}_4$
	Siderite	$\text{FeCO}_3$		Cerussite	$\text{PbCO}_3$
	Iron pyrite	$\text{FeS}_2$		Cassiterite (Tin mineral)	$\text{SnO}_3$
	Ullmanite	$\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$		Silver glasse (Lead glass)	$\text{Ag}_2\text{SiO}_3$
Copper	Copper pyrite	$\text{CuFeS}_2$	Silver	Pyropeite (Ruby silver)	$\text{Ag}_2\text{SiO}_3$
	Copper pyrite	$\text{Cu}_2\text{S}$		Chalcocite (Born Silver)	$\text{Ag}_2\text{S}$
	Cuprite	$\text{Cu}_2\text{O}$		Stibnite	$\text{Ag}_3\text{Sb}_3$
	Malachite	$\text{Cu}_2\text{O}_2 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$		Proustite	$\text{Ag}_3\text{As}_3$
Nickel	Nickelite	$[\text{NiCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2]$			

**1. अयस्क का कूटना एवं पीसना** – खानों से प्राप्त अयस्क बड़े आकार का होता है। इनको जा क्रशर नामक चक्री की सहायता से छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर इसे स्टैम्प मील की सहायता से बारीक चूर्ण में बदलते हैं।



**2. अयस्कों का सांद्रण** – अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण या प्रसाधन या सज्जीकरण कहते हैं। इसकी निम्नलिखित विधियाँ होती हैं –


(क) **हाथ से चुनकर** – अयस्कों में उपस्थित बड़े आकार वाले अशुद्धियों को हाथ से चुनकर अलग कर लिया जाता है।

(ख) **गुरुत्व पृथक्करण विधि** – यह प्रक्रिया वैसे अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है जिसमें अयस्क के कण उनमें उपस्थित अशुद्धियों से भारी हो। अयस्क के चूर्ण को जल के साथ मिलाकर उसे कई मेढ़ों वाले टेबुल से होकर प्रवाहित करते हैं। ऐसा करने से अयस्क के भरी कण मेढ़ों द्वारा रोक लिए जाते हैं जबकि अशुद्धियाँ जल के साथ बाहर आ जाती हैं।


(ग) **फेन प्लवन विधि** – यह विधि वैसी धातुओं के लिए प्रयुक्त होती है जिनके अयस्क के कण तेल द्वारा और अशुद्धियाँ जल द्वारा भीग जाती हैं।

अयस्क को खूब महीन पीसकर पाइन के तेल मिले हुए पानी के साथ हवा के झोके से झाग पैदा करते हैं। अयस्क झाग के साथ उपर आ जाता है और अशुद्धि निचे बैठ जाती है। झाग और अयस्क के मिश्रण को बाहर निकाल देते हैं, झाग को जल्दी समाप्त करने के लिए उसमें थोड़ी अम्ल की मात्रा डाल देते हैं।

• फेन प्लवन विधि में कभी-कभी अवनमक भी मिला देते हैं।



(घ) **चुम्बकीय सांद्रण विधि** – यह विधि वैसे अयस्कों के लिए लगती है जिसमें अयस्क या अशुद्धि में से कोई एक पदार्थ चुम्बकीय हो। अयस्क और अशुद्धि के महीन चूर्ण के मिश्रण को चुम्बकीय बेल्ट पर रख देते हैं और और मशीन को चालू कर देते हैं। इस प्रकार चुम्बकीय पदार्थ और अचुम्बकीय पदार्थ अलग-अलग हो जाते हैं।



❖ **अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदलना** –

(क) **निस्तापन** – निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को उसके द्रवणांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में तीव्रता से गर्म किया जाता है, ताकि अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है।



यह विधि कार्बोनेट और हाईड्राक्साइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है।

(ख) **जारण** – जारण वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है, ताकि अयस्क ऑक्साइड में बदल जाए।





❖ धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना -

(क) **प्रगलन-** धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके धातु का निष्कर्षण करना प्रगलन कहलाता है।



(ख) **एलुमिनियम द्वारा अवकरण** -जिस ऑक्साइड का अवकरण कार्बन अथवा कार्बन मोनो ऑक्साइड द्वारा नहीं हो पाता है तो उसके लिए यह विधि प्रयुक्त होती है।

**विधि** - एलुमिनियम के महीन चूर्ण और धातु के ऑक्साइड के मिश्रण को एक बंद क्रुसिबल में ले लेते हैं। यह मिश्रण थर्मिट कहलाता है। इस मिश्रण के ऊपर Mg के चूर्ण और BaO<sub>2</sub> का मिश्रण अल्प मात्रा में रख लेते हैं। यह मिश्रण ज्वलन मिश्रण कहलाता है। अब Mg के एक जलते हुए फीते से ज्वलन मिश्रण में आग लगा देते हैं, ऐसा करने से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस उच्च ताप पर धातु का ऑक्साइड एलुमिनियम के साथ अभिक्रिया करके धातु में बदल जाता है।



❖ यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है।

❖ पिघले हुए लोहे का उपयोग लोहे के टूटे हुए अंगों को जोड़ने में किया जाता है।


### धातुओं का शोधन (Refining of Metals)

विभिन्न विधियों द्वारा प्राप्त धातुओं में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, इसलिए वे अशुद्ध होती हैं। अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने का प्रक्रम, धातुओं का परिष्करण कहलाता है। इसकी निम्नलिखित विधियाँ हैं -

1. **स्तरण विधि** -जो धातुएं आसानी से वाष्प में बदल जाए, उसके लिए ये विधि प्रयुक्त होती है। अशुद्ध धातु को लोहे के रिटोर्ट में लेकर गर्म करते हैं। जो वाष्प निकलता है, उसे एक अलग ग्राहक में इकट्ठा कर लेते हैं। अवाष्पशील अशुद्धि रिटोर्ट में ही रह जाती है। जैसे- Zn, Cd, Hg

2. **द्रवण विधि** -जो धातु आसानी से पिघल जाए, उसके लिए यह विधि प्रयुक्त होती है। अशुद्ध धातु को एक भट्टी के ढालुए सतह पर रख देते हैं और गर्म करते हैं। ऐसा करने से धातुएं पिघल कर बह जाती हैं और अशुद्धियाँ ढालुए सतह पर ही रह जाती हैं। जैसे- टिन

3. **ऑक्सीकरण**- अशुद्ध धातु से आसानी से ऑक्सीकृत होने वाली अशुद्धिओं का शोधन ऑक्सीकरण द्वारा करते हैं।




(क) **खर्परण( Cupellation)-** खर्पर एक नौकाकार पात्र होता है, जो हड्डी की राख या सीमेंट का बना होता है। अशुद्ध धातु को खर्पर में रखकर वायु या ऑक्सीजन का झोक अभाते हैं। अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइड में बदल कर गायब हो जाती हैं और शुद्ध धातु प्राप्त होती है। सिल्वर धातु को लेड से मुक्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है

(ख) **बेसेमरीकरण-** अशुद्ध धातु के बेसेमर परिवर्तक नामक एक विशेष रूप से बने भट्टी में लेते हैं, जिसमें बालू एवं वायु का झोंका डाला जाता है। अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में दूर हो जाती हैं। इस विधि से कच्चे लोहे में उपस्थित As, Mr, P आदि जैसी अशुद्धियों को दूर किया जाता है।

4. **दण्ड विधि (Poling)** - यह विधि उस धातु को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाइ जाती है, जिसमें अशुद्धि के रूप में उसी धातु का ऑक्साइड उपस्थित हो। अशुद्ध धातु को एक बड़े पात्र में गलाते हैं और इसे हरी लकड़ी द्वारा हिलाते हैं। हरे दण्ड से गैसीय हाइड्रोकार्बन मुक्त होते हैं, जो ऑक्सीजन ग्रहण करके धातु ऑक्साइड को धातु में बदल देते हैं। Cu<sub>2</sub>O- Cu ; SnO<sub>2</sub>- Sn

5. **वैद्युत शोधन (Electro refining)**- इस विधि द्वारा तांबा, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, एलुमिनियम आदि धातुओं को शुद्ध किया जाता है। इसमें अशुद्ध धातु को एनोड एवं शुद्ध धातु का कैथोड बना लेते हैं। धातु के एक लवण का विलयन वैद्युत

अपघट्य का कार्य करता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से शुद्ध धातु निकलकर विलयन में चली जाती है और विलयन में से उतनी ही शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। विलेय अशुद्धि विलयन में चली जाती है, जबकि अविलेय अशुद्धि एनोड के निचे जमा हो जाती है जिसे 'एनोड मड' कहते हैं।




6. **वाष्प प्रावस्था परिष्करण-** इस विधि मे अशुद्ध धातु को उचित विधियो से वाष्पशील यौगिक मे बदलते है , जिससे अशुद्धिया पिछे छुट जाती है ।**इसके दो मुख्य शर्त होते है -**

- (क) धातु वाष्पशील यौगिक बनाने में सक्षम हो ।

- (ख) वाष्पशील यौगिक आसानी से विघटित होती हो ।

वाष्प प्रावस्था परिष्करण की दो प्रचलित विधियाँ हैं-

- **वान आरकैल विधि** -इस विधि मे कच्ची धातु को उचित पदार्थ के साथ गर्म करते है, जिससे इसमे उपस्थित शुद्ध धातु अस्थायी वाष्पशील यौगिक मे बदल जाये तथा अशुद्धिया पीछे छुट जाए ।  
इस विधि का प्रयोग अपरिस्कृत टाइटेनियम धात के शोधन मे क्या जा सकता है ।




- **मॉण्ड विधि** – इस विधि में अशुद्ध धातु को कार्बन मोनो आक्साइड के साथ 330 – 350 K पर गर्म करते हैं जिससे वाष्पशील प्रकृति वाला यौगिक में बदल जाता है, और इसे अपघटित करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। यह विधि निकेल धातु के शोधन में प्रयुक्त होता है।




#### ➤ जिंक ब्लेड से जिंक धातु का निष्कर्षण –

- सबसे पहले हम जिंक ब्लॉड के महिन चूर्ण को फेन उत्पादन विधि द्वारा सांद्रण कर लेते हैं।
  - सांद्रित अयस्को का जारण करते हैं अर्थात् वायु की उपस्थिति में उसे उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं।  
$$2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{ZnO} + 2\text{SO}_2$$



- प्राप्त ZnO को इसके आधे वजन के बराबर कोक के साथ गर्म करते हैं तो जिंक धातु प्राप्त होती है



- प्राप्त जिंक धातु अशुद्ध होता है, इसे स्त्रवण विधि द्वारा या वैद्युत विधि द्वारा शुद्ध कर लेते हैं।

➤ कैलेमाइन अयस्क से जिंक धातु का निष्कर्षण –

- सबसे पहले हम जिंक ब्लेड के महिन चूर्ण को फेन उत्पादन विधि द्वारा सांद्रण कर लेते हैं।

- सांद्रित अयस्को का निस्तापन करते हैं अर्थात् वायु की अनुपस्थिति में उसे उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं।



- प्राप्त ZnO को इसके आधे वजन के बराबर कोक के साथ गर्म करते हैं तो जिंक धातु प्राप्त होती है।



- प्राप्त जिंक धातु अशुद्ध होता है, इसे स्त्रवण विधि द्वारा या वैद्युत विधि द्वारा शुद्ध कर लेते हैं।

## जस्ता का उपयोग

- ## ▪ लोहे के जस्तीकरण में

- सायनाइड विधि से सिल्वर और गोल्ड के निष्कर्षण में

- आँख सेलों से इलेक्ट्रोड के रूप में

- मिश्रधातु बनाने में

### ➤ सिनेबार अयस्क से पारा धातु का निष्कर्षण -

- सबसे पहले सिनेबार अयस्क का सांद्रण कर लेते हैं।
- सांद्रित अयस्क का जारण करते हैं।



- प्राप्त आक्साइड को कोक के साथ गर्म करते हैं तो पारा प्राप्त होता है।



- स्तरण विधि द्वारा इसे शुद्ध कर लेते हैं।

### ऐलुमिनियम का निष्कर्षण

ऐलुमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बाक्साइट अयस्क से किया जाता है।

- सबसे पहले हम अयस्को का सांद्रण करते हैं।

- सांद्रित बाक्साइट अयस्क को चूना की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम ऐलुमिनेट बनता है।



- अवशेष को जल के साथ मिलाने पर सोडियम ऐलुमिनेट जल में घुल जाता है, जबकि अविलेय अशुद्धि यथावत रह जाते हैं जिन्हे छानकर अलग कर दिया जाता है। अब छनित द्रव में 50-60 °C पर कार्बन डाइआक्साइड गैस प्रवाहित करने पर ऐलुमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप को छानकर सुखा लेते हैं उसके बाद तीव्रता से गर्म करके शुद्ध ऐलुमिनियम आक्साइड प्राप्त कर लिया जाता है।



ऐलुमिना का वैद्युत अपघटन करने पर शुद्ध ऐलुमिनियम प्राप्त होता है।

### ➤ ऐलुमिनियम के धातुकर्म में क्रायोलाइट की क्या भूमिका है?

उत्तर- क्योंकि क्रायोलाइट ऐलुमिना के द्रवणांक को कम कर देता है तथा द्रव ऐलुमिना की चालकता को बढ़ा देता है।

### ■ ऐलुमिनियम का उपयोग

- मिश्रधातु बनाने में
- वायुयान, मोटर आदि बनाने में
- घरेलु बरतन बनाने में
- विद्युत संचालन में तार के रूप में
- मिठाई, सिगरेट पर पत्तर के रूप में
- जंगरोधी पेंट बनाने में

### मैलेकाइट अयस्क से तांबा का निष्कर्षण

- सबसे पहले हम अयस्को का सांद्रण करते हैं।
- उसके बाद उसका निस्तापन करते हैं।




- प्राप्त CuO को कोक के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो तांबा प्राप्त होता है।



प्राप्त तांबा पुरी तरह शुद्ध नहीं होता है, उसे वैद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध कर लेते हैं

### ■ तांबा का उपयोग



- मिश्रधातु बनाने में
- वैद्युत यंत्रों को बनाने में
- सिक्का एवं बरतन बनाने में
- वैद्युत लेपन में
- तांबा को सोना और चाँदी के साथ मिलाकर आभूषण बनाने में

### कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर

1. कुछ ऐसे अयस्कों का नाम बताइये जो चुम्बकिय सांद्रण विधि द्वारा सांद्रित किये जा सकते हैं ?

**उत्तर-** इस विधि द्वारा केवल उन अयस्कों का सांद्रण किया जा सकता है जिसमें अयस्क या अशुद्धि में से कोई एक चुम्बकिय हो। जैसे- हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट आदि। आयरन के अयस्कों की प्रकृति चुम्बकिय होती है एवं इन्हे इस विधि द्वारा सांद्रित किया जा सकता है। इसी प्रकार, टिन के एक अयस्क कैसेटेराइट की प्रकृति अनुचुम्बकिय होती है। इसे भी इस विधि द्वारा सांद्रित किया जा सकता है।

2. ऐलुमिनियम के निष्कर्षण में निक्षालन का क्या महत्व है ?

**उत्तर-** ऐलुमिनियम के निष्कर्षण में निक्षालन का बहुत ही महत्व है। ऐलुमिनियम के अयस्क बाक्साइट में आयरन का आक्साइड,  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{TiO}_2$  अशुद्धि के रूप में होते हैं। इस प्रकार अयस्क को सांद्र  $\text{NaOH}$  विलयन से निक्षालित करते हैं तो अशुद्धियां पीछे ही छुट जाती हैं।

3. तांबा का निष्कर्षण हाइड्रोधातुकर्म द्वारा किया जाता है, परंतु जिंक का नहीं। व्याख्या कीजिये।

**उत्तर-** क्योंकि जिंक धातु अधिक क्रियाशील है। इसिलिये जिंक का निष्कर्षण हाइड्रोधातुकर्म द्वारा नहीं किया जाता है।

4. फेन प्लवन विधि में अवनमक की क्या भुमिका है ?

**उत्तर-** अवनमक वह पदार्थ होता है जो फेन प्लवन विधि में झाग के निर्माण को कम कर देता है। यदि  $\text{ZnS}$  को  $\text{PbS}$  के मिश्रण से अलग करना हो तो अवनमक के रूप में  $\text{NaCN}$  का प्रयोग करते हैं ताकि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाय।

5. 673K ताप पर C और CO में से कौन अच्छा अपचायक है ?

**उत्तर-** CO

6. तांबा के वैद्युत अपघटन शोधन में ऐनोड पंक में उपस्थित सामान्य तत्वों के नाम दीजिये। वे वहा कैसे उपस्थित होते हैं ?

**उत्तर-** सिलीनियम, टेल्यूरियम, सिल्वर और गोल्ड ऐनोड के नीचे मुख्यतः ऐनोड के नीचे मुख्यतः धातुमल के रूप में बनती है। ऐसा इसिलिये है क्योंकि ये तांबा की तुलना में कम क्रियाशील हैं।

7. तांबा धातुकर्म में सिलिका की भुमिका समझाइये।

**उत्तर-** तांबा के धातुकर्म में सिलिका फ्लक्स के रूप में कार्य करता है, जो सिलिकेट के रूप में धातुमल बनाता है।



8. ढलवाँ लोहा कच्चे लोहे से किस प्रकार भिन्न होता है ?

**उत्तर-** ढलवाँ लोहा में कार्बन लगभग चार प्रतिशत होता है और कच्चे लोहे में लगभग तीन प्रतिशत होता है। ढलवाँ लोहा कच्चे लोहे से अधिक सख्त और भुरभुरा होता है।

9. कापर मेट को सिलिका की परत चढ़ें हुए परिवर्तक में क्यों रखा जाता है ?

**उत्तर-** सिलिका अम्लीय फ्लक्स है। कापर को सिलिका में रखकर क्षारीय ऊर्जा अशुद्धियों को दूर किया जाता है। कापर मेट में मुख्यतः  $\text{CuO}$  एवं  $\text{FeO}$  अशुद्धि होता है।



10. CO का उपयोग करते हुये अपचयन द्वारा जिंक आक्साइड से जिंक का निष्कर्षण क्यों नहीं किया जाता है?

**उत्तर-** जिंक आक्साइड से जिंक का निष्कर्षण करने के लिये कोक का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि CO द्वारा करने में उच्च तापमान की आवश्यकता होती है।